

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

आप सभी को एसएमसी की ओर से
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं





प्रमुख खबरें

- सरकारी अधिकारियों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का निर्यात 12.2% कम हो गया है जिससे दिसंबर में भारत का व्यापार घाटा पिछले महीने के 23.89 अरब डॉलर की तुलना में मोटे तौर पर 23.76 अरब डॉलर हो गया है।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन का वार्षिक एल्युमीनियम उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो शुरू की गई नई क्षमता और बिजली आपूर्ति प्रतिबंधों में छूट के साथ 40.21 मिलियन टन तक पहुंच गया।
- उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में 22 महीने के निचले स्तर 4.95% पर पहुंच गई है जो अनुमान से अधिक तेज गति से कम हुई है।
- एनर्जी कार्गो ट्रेकर वोटैक्स के आंकड़ों के अनुसार, रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2022 में अधिक बढ़ गया, और पहली बार 1 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक हो गया।
- 16 जनवरी की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने कच्चे तेल पर अपने

विंडफॉल टैक्स को 2,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,900 रुपये (23.28 डॉलर) प्रति टन कर दिया है।

- अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी) ने 2022/23 में वैश्विक स्तर पर गेहूं उत्पादन के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर रिकॉर्ड 796 मिलियन कर दिया, जो पिछले सीजन के 781 मिलियन से अधिक है।
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर के महीने में 1.55 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया, जो सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सीजन 2021-22 के दौरान देश में 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ, जिसमें से लगभग 3574 लाख मीट्रिक टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा लगभग 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करने के लिए पेरार्ई की गई, जिसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया गया।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	13.01.23	19.01.23	बदलाव (%)
धान	4506.00	4826.00	7.10%
हल्दी	7738.00	8074.00	4.34%
स्टील	49600.00	50500.00	1.81%
कपास	1603.50	1628.50	1.56%
बाजरा	2228.00	2255.00	1.21%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	13.01.23	19.01.23	बदलाव (%)
निकल	2247.00	2359.00	4.98%
कच्चा तेल	6462.00	6550.00	1.36%
सोना गिनी	44804.00	45209.00	0.90%
एल्युमीनियम	219.10	220.10	0.46%
तांबा	772.00	775.20	0.41%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	13.01.23	19.01.23	बदलाव (%)
जीरा	35375.00	33690.00	-4.76%
कैस्टर सीड	7314.00	7048.00	-3.64%
ग्वारगम	13927.00	13815.00	-0.80%
कैस्टर ऑयल	1456.50	1445.50	-0.76%
गुड़	1169.50	1164.00	-0.47%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	13.01.23	19.01.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	292.40	268.80	-8.07%
मेंथा ऑयल	1064.50	1019.00	-4.27%
लेड	190.35	188.65	-0.89%

साप्ताहिक समीक्षा

स्पष्ट रूझान के अभाव के कारण कमोडिटीज की कीमतों में तेजी देखी गई। डॉलर इंडेक्स 101.51-102.9 के दायरे में फंसा हुआ था। सोने की कीमतों में तेजी देखी गई और चांदी की कीमतों में भी तेजी का रूझान रहा। कुछ फेड अधिकारियों ने बुधवार को संकेत दिया कि वे ब्याज दरों में अधिक वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलाडेल्फिया फेड के अध्यक्ष पैट्रिक हार्कर और डलास फेड के अध्यक्ष लॉरी लोगान ने कहा कि उन्होंने धीमी दर-वृद्धि की गति का समर्थन किया। ज्यादातर कारोबारी फरवरी में दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार छठे सप्ताह बेलगाम गिरावट जारी रही। जबकि कच्चा तेल उच्च स्तर पर बने रहने में असमर्थ रहा। दो महीने की अवधि में नेचुरल गैस की कीमतें 600 से 260 तक लुढ़क गई हैं। फ्रीपोर्ट टर्मिनल के फिर से शुरू होने की उम्मीद से नरमी का दबाव बढ़ रहा है। इससे बाजारों में अधिक आपूर्ति संभव होगी, और इस वर्ष में एक ही समय में तापमान कई स्थानों पर, सबसे महत्वपूर्ण रूप से यूरोप में उम्मीद की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक हल्का होगा। कच्चा तेल बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बेस मेटल में जिक, तांबा और एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुईं जबकि चीन की कमजोर वृद्धि के कारण लेड उच्च स्तर पर टिक नहीं सका। बुधवार के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी उत्पादक कीमतें दिसंबर में अपेक्षा से अधिक कम हो गईं, जिससे इस बात के अधिक सबूत मिले कि मुद्रास्फीति कम हो रही है। दिसंबर में अमेरिकी खुदरा बिक्री एक साल में सबसे अधिक कम हो गई, और उपभोक्ता खर्च और समग्र अर्थव्यवस्था 2023 में गिरावट की ओर अग्रसर है। लेकिन, कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद शीर्ष उपभोक्ता चीन में मांग में बढ़ोतरी के अनुमान और अमेरिकी दर वृद्धि की गति में धीमेपन की उम्मीदों के बीच एलएएमई में तांबे की कीमतें साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई हैं और पिछले छह महीनों में 33% बढ़ गई हैं।

कृषि कमोडिटीज में, कम उत्पादन की खबरों के बावजूद कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में गिरावट जारी रही। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादन में कमी और बाजार में सामान्य से कम आपूर्ति से कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने 2022-23 सीजन के लिए कपास फसल उत्पादन का अनुमान 9.25 लाख गांठ घटाकर 330.50 लाख गांठ कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन घटने की उम्मीद है। हाजिर बाजार में सुस्त गतिविधियों के बीच मेंथा ऑयल में भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मेंथॉल की निर्यात मांग कम है; इसने कीमतों पर दबाव डाला। तीन सप्ताह की तेजी के बाद अरंडी की कीमतों क तेजी पर रोक लग गई। एनर्जी काउंटर में गिरावट से ग्वार काउंटर भी कमजोर कारोबार कर रहा है। लेकिन मजबूत मांग के कारण गिरावट सीमित रही। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने नवंबर 22 के महीने में लगभग 19 हजार टन ग्वार गम का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 16.9 हजार टन हुआ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 13% अधिक है। नवंबर के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, भारत का कुल ग्वारगम निर्यात वर्ष 2022 में नवंबर 22 तक 227.13 हजार टन तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 16% अधिक है। जीरा की कीमतों की तेजी थम गई और धनिया में भी कमजोर कारोबार हुआ, लेकिन हल्दी ने पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा दी।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	13.01.23	19.01.23	(%)
जौ	जयपुर	2225.00	2265.45	1.82%
चना	दिल्ली	5147.75	5087.55	-1.17%
धनिया	कोटा	8076.10	8015.05	-0.76%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	842.45	836.65	-0.69%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1167.90	1163.30	-0.39%
ग्वारसीड	जोधपुर	6335.75	6299.05	-0.58%
ग्वारगम	जोधपुर	13997.95	13790.35	-1.48%
जीरा	ऊंझा	35069.10	34627.00	-1.26%
सरसों	जयपुर	6434.10	6340.00	-1.46%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1242.50	1232.50	-0.80%
सोयाबीन	इंदौर	5756.10	5669.00	-1.51%
हल्दी	निजामाबाद	7357.45	7428.75	0.97%
गेहूं	दिल्ली	2932.85	3066.00	4.54%
कॉटन	कडी	29640.05	30122.40	1.63%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3060.15	3090.35	0.99%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	13.01.23	19.01.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2595.00	2587.50	-0.29%
तांबा	LME	नकद	9185.50	9305.50	1.31%
लेड	LME	नकद	2251.00	2142.50	-4.82%
निकल	LME	नकद	26795.00	29346.00	9.52%
जिंक	LME	नकद	3324.00	3457.50	4.02%
सोना	COMEX	फरवरी	1921.70	1923.90	0.11%
चांदी	COMEX	मार्च	24.37	23.87	-2.05%
लाइट क्रूड	NYMEX	फरवरी	79.86	80.33	0.59%
नेचुरल गैस	NYMEX	फरवरी	3.42	3.28	-4.09%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	13.01.23	19.01.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	15.38	15.14	-1.56%
सोया तेल	CBOT	मार्च	63.25	63.15	-0.16%
कॉटन	ICE	मार्च	82.29	83.39	1.34%
सीपीओ	BMD	मार्च	3,841.00	3,889.00	1.25%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	12.01.23 क्वांटिटी	19.01.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	14611	21803	7192
धनिया	मी.टन	3055	2200	-855
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	39	555	516
ग्वारगम	मी.टन	13400	14592	1192
ग्वारसीड	मी.टन	11169	13998	2829
जीरा	मी.टन	2516	2898	382
मक्का	मी.टन	214	214	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	13.01.23 क्वांटिटी	19.01.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1265	2153	888
तांबा	मी.टन	1848923	1778999	-69924
सोना	किग्रा	542	467	-75
सोना मिनी	किग्रा	13472	13472	0
सोना गिनी	किग्रा	73800	62800	-11000
लेड	किग्रा	408	408	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	196046	196258	211
चांदी एम	किग्रा	40935	40935	0
जिंक	मी.टन	1980	1923	-57

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 13.01.23	स्टॉक की स्थिति 19.01.23	अंतर
एल्युमीनियम	408875	390400	-18475.00
तांबा	84550	81925	-2625.00
निकल	53418	52386	-1032.00
लेड	25150	21350	-3800.00
जिंक	21550	20975	-575.00



ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	34820.00	29.11.22	तेजी	24600.00	33550.00	-	33500.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	8074.00	13.12.22	तेजी	7900.00	7700.00	-	7650.00
NCDEX	ग्वारसीड	फरवरी	6365.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5800.00	-	5750.00
NCDEX	कैस्टरसीड	फरवरी	7032.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	7350.00	7400.00
NCDEX	स्टील लांग	जनवरी	50210.00	26.12.22	तेजी	47300.00	49200.00	-	49000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	फरवरी	2887.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2730.00	-	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	जनवरी	1019.00	16.01.23	मंदी	1050.00	-	1065.00	1070.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	15627.00	10.11.22	तेजी	14545.00	15430.00	-	15400.00
MCX	चांदी	मार्च	68359.00	10.11.22	तेजी	61911.00	67300.00	-	67200.00
MCX	सोना	फरवरी	56546.00	10.11.22	तेजी	52109.00	55900.00	-	55800.00
MCX	मेटलडेक्स	फरवरी	19108.00	23.06.22	साइडवेज	17963.00	18400.00	19700.00	-
MCX	तांबा	जनवरी	775.20	09.01.23	तेजी	750.00	745.00	-	740.00
MCX	लेड	जनवरी	188.65	15.12.22	साइडवेज	185.50	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	जनवरी	295.45	09.01.23	तेजी	275.00	282.00	-	280.00
MCX	एल्युमिनियम	जनवरी	220.10	09.01.23	तेजी	210.00	211.00	-	210.00
MCX	कच्चा तेल	फरवरी	6578.00	11.01.23	तेजी	6100.00	6330.00	-	6300.00
MCX	नेचुरल गैस	फरवरी	261.80	19.12.22	मंदी	480.00	-	315.00	320.00

*19/01/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना को ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युज्ड को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स



कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 6781.00

निचला स्तर: 6080.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 19 जनवरी 2023 को 6578.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6543.26 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.737 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

200.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 510.00 रु के टारगेट के लिए 300.00 रु के नजदीक कच्चातेल फरवरी 6600 के कॉल की खरीददारी जा सकती है।

जीरा (मार्च) एनसीडीईएक्स



जीरा (मार्च) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 37990.00

निचला स्तर: 33160.00

एनसीडीईएक्स में जीरा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 19 जनवरी 2023 को 34820.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 29753.69 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.404 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

35700.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 32000.00 रु के टारगेट के लिए 34500.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

लेड (फरवरी) एमसीएक्स



लेड (फरवरी) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 192.80

निचला स्तर: 187.95

एमसीएक्स में लेड (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 19 जनवरी 2023 को 188.95 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 186.78 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 49.43 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

191.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 176.00 रु के टारगेट के लिए 186.00 रु से नीचे बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

स्थानीय बाजार में उभरती मांग के बाद हल्दी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम गया है। निर्यातक खरीदारी गतिविधियों में अच्छी रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि निर्यात के लिए पूछताछ में सुधार हुआ है। बाजार में प्रीमियम गुणवत्ता की हल्दी अभी कम है क्योंकि स्टॉक अपने पुराने स्टॉक को कम दर पर जारी कर रहे हैं और आगे के कम उत्पादन को देखते हुए प्रीमियम गुणवत्ता की हल्दी को रोक कर रखे हुए हैं। आपूर्ति कम है और जब तक नई फसल बाजार में नहीं आ जाती, तब तक यह कम ही रहेगी। भारत ने नवंबर 21 में 12.2 हजार टन की तुलना में नवंबर 22 लगभग 12.4 हजार टन हल्दी का निर्यात किया। तकनीकी रूप से, हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों को 7700 पर सपोर्ट है और 8600 तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सुस्त हाजिर मांग के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है। जीरा की कीमतों में 37990 के उच्चतम स्तर से 10% की गिरावट हुई है और बढ़ते बिकवाली दबाव के साथ अभी गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। नए फसल सीजन को देखते हुए मिलें और निर्यातक थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं। लेकिन, आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन संभावना के कारण जीरे की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण जीरा के अप्रैल और मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें 300 और 1100 के प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं। चार्ट पर वर्तमान तकनीकी संरचना को देखते हुए, ऐसा लगता है कि जीरा में मुनाफावसूली जारी रहने की संभावना है, और कीमतें 38000 के रेंजिस्टेंस के साथ 32000 तक लुढ़क सकती हैं।

हाजिर बाजार में कमजोर मांग के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों में कमजोरी के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट और सामान्य फसल प्रगति से बेहतर उपज की संभावनाएं बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित सकती हैं। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है और नई फसल की आवक बढ़ने पर इसमें आगे भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। नई फसल की कटाई मार्च में शुरू होने की संभावना है जो खरीदारों को भारी खरीदारी से दूर रखे हुए है। धनिया की कीमतों में मुख्य रूझान नरमी का है और कीमतें 8500 के रेंजिस्टेंस के साथ निकट अवधि में 8000 के स्तर को छू सकती हैं।

अन्य कमोडिटीज

स्थानीय बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण एनसीडीईएक्स पर कपास वायदा(अप्रैल) की कीमतों में नरमी जारी रह सकती है। किसानों के पास कपास का अधिक स्टॉक और सुस्त निर्यात मांग के कारण निकट अवधि में कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कपास के आयात की छूट से भी आपूर्ति बढ़ेगी और घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन, पिछले साल की तुलना में कपास की आवक कम है, क्योंकि किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में अपनी उपज को जमाखोरी कर रहे हैं। भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के मद्देनजर, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख बेल कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। कपास की कीमतों को 1650 के स्तर पर रेंजिस्टेंस का सामना करने की संभावना है और वहां से 1570 की ओर गिरावट की उम्मीद है।

हाजिर बाजारों में सुस्त मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (फरवरी) वायदा की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। पशुआहार उद्योग में मांग कम हो गई है क्योंकि अधिकांश स्टॉक स्टॉक सरसों की नई फसल के मौसम को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। सरसों मील का उपयोग भारत के उत्तरी भाग में कॉटनसीडऑयल केक के विकल्प के रूप में किया जाता है। कॉटनसीडऑयल केक की आपूर्ति आपूर्ति अधिक होने की संभावना है क्योंकि किसानों के पास बेहतर मूल्य की प्राप्ति की संभावना से कपास का भारी स्टॉक है। कीमतों के 2800-2950 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

ग्वारसीड (फरवरी) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है क्योंकि प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति बढ़ने के बाद कीमतों में कुछ गिरावट हो सकती है। कीमतों में हालिया बढ़त के बाद आवक में फिर से सुधार होना शुरू हो गया है। लेकिन ग्वारगम की मजबूत निर्यात मांग के कारण ग्वार समूह में प्रमुख रूझान सकारात्मक रहने की संभावना है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने नवंबर 22 के महीने में लगभग 19 हजार टन ग्वारगम का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2021 की समान अवधि में 16.9 हजार टन निर्यात हुआ था। वर्ष 2022 में नवंबर तक भारत का कुल ग्वारगम निर्यात 227.13 हजार टन तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 16% अधिक है। ग्वारसीड की कीमतों के 5800-6600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। ग्वारगम की कीमतें 12400-15100 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग में बढ़ोतरी के कारण मेंथा ऑयल वायदा(फरवरी) की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। चीन में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के साथ, मेंथॉल की निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी होगी जिससे कीमतों की गिरावट पर रोक लग सकती है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतों के 1020-1060 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा(फरवरी) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। सुस्त निर्यात मांग अभी भी अरंडी तेल व्यापारियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू स्टॉक बढ़ रहे हैं। चीन में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण जनवरी-नवंबर 22 के दौरान कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 543.4 हजार टन रह गया। लेकिन चीन में हाल ही में जारी सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के बीच कोविड प्रतिबंध मानदंडों को हटाए जाने के साथ मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अरंडी की कीमतों के 6700-7300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्पिका

अमेरिकी ब्याज दरों में धीमी वृद्धि की उम्मीद के कारण सोने की कीमतें लगातार पांचवीं साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुईं। बाजार में विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी अगली दो नीतिगत बैठकों में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बाद नीतियों में सख्ती के दौर को समाप्त कर देगा और फिर कम से कम शेष वर्ष के लिए दरों को स्थिर रखने की संभावना है। सोने की कीमतें अभी भी हाल के उच्च स्तर के पास कारोबार कर रही हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर 56746 पर पहुंच गई हैं। मुद्रास्फीति में अधिक कमी के संकेतों के बीच फेड द्वारा नीतियों में बदलाव की संभावना सोने की कीमतों तेजी का एक प्रमुख कारक है। दिसंबर में अमेरिकी उत्पादक कीमतें पिछले महीने उम्मीद से ज्यादा कम हो गईं, जिससे इस बात के अधिक सबूत मिले कि महंगाई कम हो रही है और बदले में, फेड दरों में बढ़ोतरी को धीमा कर सकता है। ऐसे संकेत हैं जो दिखाते हैं कि अमेरिका संभवतः मंदी की ओर बढ़ रहा है, यह सोने के पक्ष में होगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने बाजार के अनुमान के मुकाबले यह कहा कि मुद्रास्फीति में हालिया गिरावट और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत कदमों को बनाए रखने के दबाव को कम करने के लिए अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की गति को धीमा कर देगा। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1960 डॉलर के रेंजिस्टेंस स्तर के आसपास कारोबार कर रही हैं, और इस स्तर को पार करने के बाद 1980-2000 डॉलर तक बढ़ सकती हैं। चांदी की कीमतें 22.600-25.900 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है लेकिन तेजी बहुत अधिक दिख रही है, इसलिए उच्च स्तर से मुनाफा वसूली की उम्मीद है जिस खरीदारी का अवसर माना जा सकता है। कीमतें 55000-57500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चांदी की कीमतें 65000-72000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

चीन की ओर से बढ़ती मांग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जबकि बाजार ने अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी की खबरों को अनदेखा कर दिया। संयुक्त संगठन डेटा इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित नवीनतम निर्यात आंकड़ों के अनुसार, चीन में तेल की मांग पिछले महीने से लगभग 1 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़कर नवंबर में 15.41 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई, जो फरवरी के बाद उच्चतम स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फतह बिरोल ने कहा कि चीनी अर्थव्यवस्था में रिकवरी और रूसी तेल उद्योग पर प्रतिबंधों के कारण 2023 में ऊर्जा बाजारों में तेजी आ सकती है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के स्टॉक में 8.4 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई थी, जून 2021 के बाद से सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई। चीन के फिर से खुलने से बढ़ती यात्रा के लिए तेल मांग और फ्रांस में हमलों से रिफाईंड उत्पादों की आपूर्ति के खतरों के बीच अमेरिकी गैसोलीन का रिफाईनिंग मार्जिन पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यहां तेजी का सेंटीमेंट है लेकिन गिरावट का डर बना हुआ है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 6250-7090 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कीमतों में गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। नेचुरल गैस की कीमतों में पूरे सप्ताह भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि बढ़ते उत्पादन ने मांग को पीछे छोड़ दिया है और कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ईआईए के अनुमानों के अनुसार, फ्रीपोर्ट एलएनजी के शुरू होने के बाद एलएनजी का निर्यात बढ़ जाएगा और दूसरी तिमाही में नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि जारी रहेगी। इस सप्ताह में गैस की कीमतों की गिरावट पर रोक लगने की संभावना है और कीमतों को 220 के पास सपोर्ट रह सकता है और उच्च स्तर पर 280 पर रेंजिस्टेंस रह सकता है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें काफी कम दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष खरीदार चीन में 23-27 जनवरी के दौरान लूनर नववर्ष मनाने के लिए लंबे अवकाश के दौरान फिजिकल धातुओं की मांग धीमी हो सकती है। कमजोर अमेरिकी खुदरा और मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के कारण आशंका बढ़ी है कि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, जिससे सुरक्षित-निवेश वाले डॉलर की मांग बढ़ रही है। लेकिन आपूर्ति की चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी धीमी होने की उम्मीद से कीमतों को मदद मिल सकती है। चीन द्वारा सीमाओं को फिर से खोलने और कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अधिक नीतिगत समर्थन के चीन के वादे के कारण दुनिया के शीर्ष उपभोक्ता बाजार से धातुओं की मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। चीन ने शुक्रवार को अपनी बेंचमार्क उधार दरों को लगातार पांचवें महीने में अनुमान के अनुकूल अपरिवर्तित रखा, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि भविष्य में कटौती संभव है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कोविड से तबाह अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का संकल्प लिया है। तांबे की कीमतें 760-790 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। दुनिया में खदानों से तांबे के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक पेरू में तांबे के कम भंडार और प्रदर्शनों के कारण कीमतों को समर्थन मिल सकता है। चिली की खनन कंपनी एंटोफगास्ता ने 2022 में तांबे के उत्पादन में 10.4% की गिरावट के साथ 646,200 टन उत्पादन किया है, क्योंकि कम अयस्क ग्रेड और चिली में ऐतिहासिक सूखे के कारण उत्पादन में कमी हुई। जिंक की कीमतें 285-310 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लोड की कीमतें 183-196 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 210-232 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में चीन का वार्षिक एल्युमीनियम उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो शुरू की गई नई क्षमता और बिजली आपूर्ति प्रतिबंधों में छूट के साथ 40.21 मिलियन टन तक पहुंच गया। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (फरवरी) की कीमतें 49000-52000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। मजबूत घरेलू मांग परिदृश्य से इस्पात की कीमतों को लाभ मिलने की संभावना है। बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, क्षमता के अधिक उपयोग से स्थानीय इस्पात उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

वैश्विक विकास और कमोडिटीज

इन दिनों वैश्विक विकास दुनिया के नेताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया है और उन्हें परेशान कर रहा है। उच्च मुद्रास्फीति, अधिक ब्याज दरें, कम होते निवेश, और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण होने वाली रुकावटों के कारण वैश्विक वृद्धि दर तेजी से धीमी हो रही है। नाजुक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी विपरीत स्थिति- जैसे अनुमान से अधिक मुद्रास्फीति, इसे रोकने के लिए ब्याज दरों में अचानक वृद्धि, कोविड-19 महामारी में फिर से उछाल, या भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि- वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक मंदी की ओर ले जा सकती है। यह 80 से अधिक वर्षों में पहली बार ऐसा है कि एक ही दशक के भीतर दो बार वैश्विक मंदी आई है।

विश्व बैंक की चेतावनी


विश्व बैंक ने इस वर्ष विश्व स्तर पर आर्थिक विकास के लिए अपने अनुमान को घटा दिया है और चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बैंक अब वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि इसके पहले 3% वृद्धि का अनुमान लगाया था। इसने 2024 के लिए भी अपने मार्गदर्शन को घटाकर 2.7% कर दिया।

अमेरिका और यूरोप में विकास

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2022 में वृद्धि दर 2.5% से धीमा होकर 2023 में 0.5% रहने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, वृद्धि दर के 2023 में 0.5% तक कम होने का अनुमान है- पिछले पूर्वानुमानों से 1.9 प्रतिशत अंक और 1970 की आधिकारिक मंदी के बाद से सबसे कमजोर प्रदर्शन है। 2023 में, यूरो-क्षेत्र की वृद्धि शून्य प्रतिशत होने की उम्मीद है जो 1.9 प्रतिशत अंकों की गिरावट है।

चीन में विकास

2022 में चीन की जीडीपी केवल 3% बढ़ी, जो 2020 के प्रारंभिक महामारी वर्ष में दर्ज 2.2% की दर को छोड़कर 1976 के बाद से सबसे धीमी दर है। यह वृद्धि दर बीजिंग के आधिकारिक विकास लक्ष्य से कम रही है, जो पहले से ही दशकों में सबसे कम 5.5 प्रतिशत था। 2023 में विकास दर 4.3% रहने का अनुमान है जो पिछले पूर्वानुमानों से 0.9 प्रतिशत कम है। चीन ने बार-बार कोविड-19 के प्रकोप और आवाजाही पर प्रतिबंधों, अभूतपूर्व सूखे और संपत्ति क्षेत्र में लंबे समय तक दबाव का सामना किया है जिसके कारण खपत, भोजन और ऊर्जा उत्पादन और आवासीय निवेश पर रोक लग गई। यद्यपि चीन की अर्थव्यवस्था के 2023 में रिकवरी होने की उम्मीद है क्योंकि चीन की सीमाएं दुनिया के लिए फिर से खुल गई हैं, लेकिन कोविड नियंत्रणों को लेकर चीन जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसका विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ना तय है।



स्रोत: विश्व बैंक

में शुरू होने वाले अतिरिक्त यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल निर्यात 2023 में कम होने की उम्मीद है। बेस मेटल की कीमतों में भी 2023 में गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि चीन के संपत्ति बाजार में कमजोरी के दबाव के परिणामस्वरूप दुनिया के सबसे बड़े धातु खपत वाले देश में मांग में कमी आई है। सोने के आउटलुक के आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट से प्रभावित होने की संभावना है। दिसंबर में कीमतों में अधिक गिरावट और कम बॉन्ड यील्ड शून्य-उपज वाले सोने के लिए एक स्वागत योग्य होगा।

2022 में कृषि कीमतों में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद 2023 में 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर बेहतर वैश्विक उत्पादन की संभावनाओं और इनपुट लागत में कमी को दर्शाता है।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्यूरिटीज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।